SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

Corporate Office:- F-32/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020 Regd. Office & Works:- A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Distt. Bulandshahar, U.P.-203205 Sandila Works: Plot No. B-2/6 & B-2/7, UPSIDC Industrial Area-Phase-IV, Sandila, District Hardoi U.P. E. id:- secretarial@shrigangindustries.com web.:- www.shrigangindustries.com Tel. No.: 011-42524454

Date: 16.11.2019

To BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400001

Scrip Code: 523309

Sub: <u>Intimation of the publication of extract of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019.</u>

Dear Sir/Ma'am

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of extract of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019 published in the following newspapers:

- 1. The Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt thereof.

Thanking you Yours truly.

For Shri Gang Industries and Allied Products Limited

Kanishkadaimy Secretary)

(Company Secretary)

Encl.: as above

SAI MOH AUTO LINKS LIMITED CIN: L34300DL1985PLC020510

Regd. Off.: C-582, SARASWATI VIHAR, PITAMPURA, DELHI-110034 Phone.: 011-27017987, Fax No.: 011-27017987 Website: www.saimohauto.com; Email:saimohauto@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2019
(Rs. In Lacs) Except EPS

No.	Particulars	30.09.2019	Months Ended 30.09.2019	Quarter Ended 30.09.2018
1	Total income from operations (net)	794.71	1524.60	541.16
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	1.68	6.76	3.87
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	1.68	6.76	3.87
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	1.19	5.33	14.07
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and	10		30.02.0
	other Comprehensive income (after tax))	1.19	5.33	14.07
6	Equity Share Capital	330.25	330.25	330.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)			
	Basic:	0.04	0.16	0.43
	Diluted:	0.04	0.16	0.43

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2019 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Company's website www.saimohauto.com. The above Unaudited Financial results are prepared in accordance with the Companies (Ind AS) Rules, 2015. For and on behalf of Board Directors of Sai Moh Auto Links Limited

Place: New Delhi Date: 14/11/2019

मुल और तरल

(*) (वार्षिककृत नहीं)

Anand Kumar Managing Director DIN:01381489

For the For Six For the

श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि. CIN: L01112UP1989PLC011004

पंजी, कार्यालय: ए-26, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203205 ई-मेल: secretarial@shrigangindustries.com; वेबसाइट: www.shrigangindustries.com द्रभाष: 05735-222568/011-42524454

	स्टैंडएलोन अन–अंकेक्षित वि	त्तीय परिणाम	का सारांश	(रु. लाखों में)
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2019 को (अनअंकेक्षित)	समाप्त छमाही 30.09.2019 को (अनअंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2018 को (अनअंकेक्षित)
1	संचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2.07	3.53	161.03
2	सामान्य गतिविधियों से लाभ/(हानि)(कर,	\$2000000	\$5059070	100000000000000000000000000000000000000
	विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(69.91)	(153.92)	(87.57)
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)			.,
	(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(69.91)	(153.92)	(87.57)
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि		(153.92)	(87.57)
5	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु.10/- प्रति)	793.00	793.00	793.00
6	रिजर्व (पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के	1056891 (000)	A1699266.5%	100000000000000000000000000000000000000
7	अनुसारं आरक्षण को छोड़कर) प्रति शेयर आय (रु. 10 /— का अंकित मूल्य) असाधारण वस्तुओं से पहले और बाद में	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा 14.11.2019 को आयोजित उनकी बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और बाद में 14.11.2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा

 $(0.88)^*$

 $(1.94)^*$

 $(1.11)^*$

उपरोक्त परिणाम सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के विनियमन 33 के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही और अर्धवार्षिक विशीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है विनियम, 2015। तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय का पूर्ण प्रारूप परिणाम www.bseindia.com पर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और www.shrigangindindra.com पर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

वर्तमान में कंपनी केवल एक सेगमेंट में काम करती है-वानस्पती और रिफाइंड तेल। कंपनी संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्डथ्स और देशी शराब के लिए एक डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट की स्थापना कर रही है, जिस पर काम चल रहा है।

वर्तमान तिमाही के दौरान कंपनी की वनस्पती / परिशोधित तेल इकाई में कोई उत्पादन नहीं हुआ था। स्पष्ट अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के समतुल्य बनाने के लिए पुन व्यवस्थित / पनर्वयवस्थित किया गया है। बोर्ड के आदेश द्वारा

कृते भी गंग इंडस्टीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि. स्थान : नई दिल्ली सैय्यद एजिज़्र रहमान तिथि: 14 नवम्बर, 2019 पूर्णकालिक निदेशक

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

पी.जी. माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संबंधित	विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	पी.जी. माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02.07.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72200DL2004PTC127329
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः सी-266, गली नंबर 8, मजलिस पार्क, नई दिल्ली -110033
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	19.07.2019 (NCLT आदेश की सूचना 14.11.2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	12.05.2020 (दिवाला प्रक्रिया आरम्भ होने की तिथि से 180वां दिन)
8	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	प्रवीण कुमार अग्रवाल पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00720/ 2017-18/11258
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : 57, नर्मदा अपार्टमेंट्स, अलकनन्दा, नई दिल्ली —110019 ई—मेल pkaggrawal@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल	षता : 101, निपुन प्लाजा, सेक्टर −1, (मैक्स अस्पताल के पास वैशाली, गालियाबाद−201010 मोबाइल: 9811093062 ई-मैल : cirp.pgmicro@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	28.11.2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल हारा धारा २१ की उप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणिया, यदि कोई	अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं है ।
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध असमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपंत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध हैं :	क) वेबलिक: http://www.lbbi.gov.in/home/downloads ख) मीतिक पता : जैसा कि क्रम सं. 10 पर है

19.07.2019 की, अंतरिम संकल्प पेशेवर को 14.11.2019 की सुचित किया गया था।

पी.जी. माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एसदहारा अपने दावों का प्रमाण **28 नवबंर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का

प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, बाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे निर्दिष्ट रूपों में प्रस्तात किए जा सकते हैं कॉर्म बी — परिचलान लेनदारों (कामगारों और कर्मचारियों को छोडकर) के दावों के

लिए **फॉर्म सी** – वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म सीए** – पूर्वोत्ता के रूप में वर्ग में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म डी** – कामगार और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए. **फॉर्म ई** – कामगार और कर्मचारियों के अधिकत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म एफ** – लेनदारों द्वारा दावे, वित्तीय लेनदारों और परिवालन लेनदारों के अलावा । किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सुवीबद्ध हैं, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य

करने के लिए प्रविध्ति सं. 13 के समक्ष सुवीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि (श्रेणी निदर्शित करें) प्रपन्न सीए में निदर्शित करेगा, लागू नहीं दावे के कर्जी अधवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंढनीय होगी।

प्रवीण कुमार अग्रवाल

(0.17)*

 $(0.17)^*$

CIN: L26943HP1992PLC016791 पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 2, फेज़ III, संसारपुर टेरेस, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212 कॉर्पो. कार्या. : एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-॥, नई दिल्ली-110020 फोन : 01970-256414, ई-मेल: secretarial@surajindustries.org वेषसाइट: www.surajindustries.org

30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही माह के लिए अनअंकेक्षित

	स्टैंडएलॉन वित्तीय पी	.715	1	(रु, लाखों में)
क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2019 को (अनअंकेक्षित)		समाप्त तिमाही 30.09.2018 को (अनअंकेक्षित)
1 2	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर, विशिष्ट	24.06	86,99	0.00
3	एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(14.74)	(33.62)	(12.13)
4	(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि)	(14.74)	(33.62)	(12.13)
5	(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक	(14.74)	(33.62)	(12.13)
	आय (कर के बाद) से शामिल	(14.74)	(33.62)	(12.13)
6	इक्किटी शेषर पूंजी (सम मूल्य रू.10/- प्रति) पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार	728.6	728.6	728.6
8	पुनर्मृल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)(जारी तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिककृत नहीं)	0.00	0.00	0.00

क. मृल

- खा. तरल

दिनांक : 15 नवंबर 2019

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा 14.11.2019 को आयोजित उनकी बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और बाद में 14.11.2019 को आयोजित उनकी बेठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई। ये परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंडस्टीज) के अनसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 बं

(0.20)*

 $(0.20)^{+}$

(0.46)*

(0.46)*

तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों के तहत जारी किए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इंड-एएस 108 सेगमेंट वार रिपोर्टिंग से संबंधित नहीं है क्योंकि कंपनी केवल एक सेगमेंट में काम पिछले अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के तुलनीय बनाने के लिए पुनरू व्यवस्थित / पुनः

व्यवस्थित किया गया है। बोर्ड के आदेश से सुरज इंडस्टीज लि, के लिए स्थान : नई दिल्ली सैय्यद एजिजूर रहमान तिथि : 14 नवम्बर, 2019

सूचना प्रीसोगिकी विभाव, कॉर्निस्ट कार्यालय, नं 254-280, क्रजी बन्धुगम साझे. शावनेक्ट, चेची - 800 014. इंडियन बैंक, जो एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है, बाइड एरिया नेटवर्क (WAN) के लिए एमपीएलएस (MPLS) कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु सेवा प्रदाताओं की पहचान करने में अभिरुधि रखता है। इच्छुक पार्टियाँ विवरण के लिए बैंक की व्यसहट

arrew.indienbenk.in/tenders देखें।

कार्पोरेशन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान

नई दिल्ली-110005, फोन: 011-28755514 / 28754642, 7042597411 ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com शुद्धिपत्र

दिनांक 03.11.2019 को इस समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में छपे विज्ञापन ई-नीलामी बिक्री सुचना के संदर्भ में आम जनता को सुचित किया जाता है कि बैंक शाखा सिकंदरपुर के खाते के कर्जदार : मैसर्स ई-मेडिटेक इंश्योरेंस प्रा. लि. (क्र.सं. 5) की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 19.11.2019 को होनी थी, हम इस सम्पत्ति की ई—नीलामी को रद्द / निरस्त करते है। प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बँक



THE BUYBACK

K.P.R. MILL LIMITED

CIN: L17111TZ2003PLC010518

Registered Office: No. 9, Gokul Buildings, A.K.S. Nagar, Thadagam Road, Coimbatore - 641 001, India. Corporate Office: 1st Floor Srivari Shrimat, 1045, Avinashi Road, Coimbatore - 641 018, India Contact Person: Mr. P. Kandaswamy, Company Secretary Tel: 0422-2207777 | Fax: 0422-2207778 | Email: investors@kprmill.com Website: www.kprmilllimited.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF K.P.R. MILL LIMITED

This Public Announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read inconjunction with the Public Announcement dated June 7, 2019 and published on June 10, 2019 (the "Public Announcement"), the Letter of Offer dated October 21, 2019 (the "Letter of Offer") and the Corrigendum to the Letter of Offer dated October 24, 2019 (the "Corrigendum"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement, the Letter of Offer and the Corrigendum to the Letter of Offer.

- 1.1 K.P.R. Mill Limited (the "Company") had announced the Buyback of not exceeding 37,50,784 (Thirty Seven Lakh Fifty Thousand Seven Hundred and Eighty Four) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 5 each ("Equity Shares") from all the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the record date (i.e. Wednesday, June 19, 2019), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" process at a price of ₹702 (Rupees Seven Hundred and Two only) per Equity Share payable in cash for an aggregate consideration not exceeding ₹ 263,30,50,368/- (Rupees Two Hundred Sixty Three Crore Thirty Lakh Fifty Thousand Three Hundred and Sixty Eight only). ("Buyback Offer Size"). The Buyback Offer Size represents 17.61% and 14.87% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone and consolidated financial statements respectively of the Company for the financial year ended March 31, 2019, (the last audited financial statements available as on the date of the Board Meeting approving the Buyback) and is within the statutory limits of 25% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per audited standalone and consolidated financial statements of the Company, under the Tender offer route as per the provisions of the Buyback Regulations. The maximum number of Equity Shares proposed to be bought back represents 5.17% of the total number of Equity Shares in the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company.
- 1.2. The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as provided under Buyback Regulations and circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").
- The Buyback Offer opened on Tuesday, October 29, 2019 and closed on Monday, November 11, 2019.
- 2. DETAILS OF BUYBACK
- The total number of Equity Shares bought back under the Buyback Offer are 37,50,784 (Thirty Seven Lakh Fifty Thousand Seven Hundred and Eighty Four) Equity Shares at a price of ₹702 (Rupees Seven Hundred and Two only) per Equity Share.
- The total amount utilized in the Buyback of Equity Shares is ₹263,30,50,368 (Rupees Two Hundred Sixty Three Crore Thirty Lakhs Fifty Thousand Three Hundred Sixty Eight Only) excluding transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, service tax, stamp duty, etc.
- The Registrar to the Buyback Offer i.e. Karvy Fintech Private Limited (the "Registrar to the Buyback Offer") considered 4,544 valid bids for 2,07,17,443 (Two Crore Seven Lakh Seventeen Thousand Four Hundred Forty Three) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 5.5235 times the maximum number of shares proposed to be bought back. The details of valid bids received by the Registrar to the Buyback Offer are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of valid Bids	Total Valid Equity Shares Tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	5,62,618	4,014	2,81,265	49.9922
General Category for all other eligible shareholders	31,88,166	530	2,04,36,178	641.001
Total	37,50,784	4,544	2,07,17,443	552.35

#As per the certificate dated November 14, 2019 received from Karvy Fintech Private Limited.

- All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and Paragraph 19 of the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to respective Shareholders by November 15, 2019.
- The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation")/BSE Limited on November 15, 2019. Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If Eligible shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction were rejected by Reserve Bank of India/bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokers/custodians for onward transfer to such Eligible shareholders.

Valid Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on

- November 15, 2019. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Shareholder Brokers/custodians by the Clearing Corporation/BSE Limited on November 15, 2019.
- The extinguishment of 37,50,784 Equity Shares accepted under the Buyback is currently under process and shall be completed by November 19, 2019.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- The capital structure of the Company, pre and post Buyback Offer is as under:

(Equity Shares have a face value of ₹5 each)

	Pre Buyl	oack	Post Buyback ^e		
Particulars	No. of Equity Shares	Amount in Crore (₹)	No. of Equity Shares	Amount in Crore (₹)	
Authorized share capital	9,00,00,000	45.00	9,00,00,000	45.00	
Issued, subscribed and paid up share capital	7,25,60,784	36.28	6,88,10,000	34,41	

The details of the Shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares
1	K P D SIGAMANI	7,98,779	21.30	1.16
2	PNATARAJ	7,98,779	21.30	1.16
3	K P RAMASAMY	7,98,779	21.30	1.16
4	L&T MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED-L&T EMERGING BUSIN	1,54,533	4.12	0.22
5	DSP SMALL CAP FUND	1,10,831	2.95	0.16
6	D RADHAMANI	91,194	2.43	0.13
7	NJAYANTHI	91,194	2.43	0.13
8	K R PARVATHI	91,122	2.43	0.13
9	FRANKLIN INDIA SMALLER COMPANIES FUND	77,551	2.07	0.11
10	ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C	69,906	1.86	0.10
11	L AND T MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED - L AND T HYBR	57,051	1.52	0.08
12	L AND T MUTUAL FUND TRUSTEE LTD-L AND T INDIA VALU	53,850	1.44	0.08
13	L AND T MUTUAL FUND TRUSTEE LTD-LAND T TAX ADVANT	51,819	1.38	0.08
14	RELIANCE CAPITAL TRUSTEE CO. LTD-A/C RELIANCESMALL	48,150	1.28	0.07

The shareholding pattern of the Company pre-Buyback (as on Record Date i.e. Wednesday, June 19, 2019) and post Buyback

	Pre Buyback		Post Buyback*		
Particulars	No. of Equity Shares	%of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital	
Promoters and Promoter Group	5,44,14,598	74.99	5,17,44,751	75.20	
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds	11,52,695	1.59	1,70,65,249	24.80	
Financial Institutions/Banks/Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	1,21,16,499	16.70	11/0/30/210		
Other (public, public bodies corporate etc.)	48,76,992	6.72			
Total	7,25,60,784	100.00	6,88,10,000	100.00	

*Subject to extinguishment of 37,50,784 Equity Shares

MANAGER TO THE BUYBACK OFFER **IDBI CAPITAL MARKETS & SECURITIES LIMITED** 6th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005



Contact Person: Mr. Apurva Bholay/ Ms. Anusha Shetty Tel No.: +91 (22) 2217 1700; Fax No.: +91 (22) 2215 1787, E-mail: kpr.buyback@idbicapital.com; Website: www.idbicapital.com SEBI Registration Number: INM000010866 Validity Period: Permanent Registration CIN: U65990MH1993GOI075578

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that the information in this Post Buyback Public Announcement contain true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of K.P.R. Mill Limited

(KPD Sigamani) (P. Nataraj) (P. Kandaswamy) Managing Director Managing Director Company Secretary (DIN: 00003744) (DIN: 00229137) FCS: 2172

बाई बाई एक सी एल IIFCL

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्वर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

5वां तल, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 सीआईएन नः U67190DL2006GOI144520

वेबसाइटः www.iifcl.org, ई-मेंलः info@iifcl.org, फोनः +91-11-24662777

			₹ लाख
क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 को समाप्त छमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 # को समाप्त छमाही (अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	1,89,265.27	1,83,066.57
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर एवं अपवादात्मक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(17,560.48)	25,963.27
3	अवधि हेतु कर-पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(17,560.48)	25,963.27
4	अवधि हेतु कर-पश्चात निवल लाम/(हानि) (अपवादात्मक एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(11,260.45)	8,695.26
5	अवधि हेतु कुल समग्र आय (अवधि हेतु लाभ / हानि सहित) (कर-पश्चात) एवं अन्य कुल आय (कर-पश्चात)	(11,284.72)	8,593.96
6	इक्विटी शेयर पूंजी	4,70,231.62	4,20,231.62
7	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर आरक्षित निधि	33,944.47	91,653.20
8	निवल मूल्य	5,04,176.09	5,11,884.82
9	भारित औसत प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये के) उपार्जन (सतत एव बंद प्रचालनों में)—	8	
	1. मूलः	(0.24)	0.22
	2. तनुकृतः	(0.24)	0.22

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए स्टैंडएलोन समिक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

तिथि: 15.11.2019

स्थानः नई दिल्ली

- क) उपरोक्त ब्यौरा सेबी (सूचीयन एवं अन्य विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गये छमाही / वार्षिक वित्तीय विवरण के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। छमाही / वित्तीय विवरण परिणामों का पूरा प्रारूप वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com व www.iifcl.org. पर भी उपलब्ध है।
- (ख) सेबी (सूचीयन एवं अन्य विगोपन अपेक्षाए) विनियमन, 2015 के विनियम 52 (4) के उप खंड (क), (ख), (घ) एवं (ड) में संदर्भित मदों से संबंधित विगोपन स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई व एनएसई) को किए गये है जो www.bseindia.com and www.nseindia.com पर देखें जा
- (ग) उपर्यक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति ने अपनी 15 नवंबर, 2019 को हुई बैठक में समीक्षा कर ली है और कंपनी के निदेशक मंडल ने 15 नवंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है। कंपनी के साविधिक लेखापरीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों की सीमित
- समीक्षा कर ली है। # पूर्ववर्ती अवधि के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक है पुनर्समृहित / पुनर्वगीकृत किया गया है। अवधि के लिये तुलनात्मक पुनवर्णित कुल समग्र आय [अवधि के लिये संघठित लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय

(कर पश्चात)] में 105.14 लाख रू की वृद्धि हुई है। कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से हस्ता./-पंकज जैन (प्रबंध निदेशक) डीआईएन नं: 00675922

SKP SECURITIES LIMITED

CIN: L74140WB1990PLC049032

Registered Office: Chatterjee International Centre, Level 21, 33A, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700071 Phone No.: +91 033 4007 7000; Fax No.: +91 033 4007 7007, Email Id: cs@skpsecurities.com; Website: www.skpsecurities.com Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Alka Khetawat

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SKP SECURITIES LIMITED

This Post Buyback Public Announcement ('Post Buyback PA') is published pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 ("Buyback Regulations"). This Post Buyback PA should be read in conjunction with the Public Announcement ("PA") dated June 24, 2019 and the Letter of Offer ('LOF') dated October 15, 2019. The terms used but not defined in this Post Buyback PA shall have the same meanings as assigned in PA and LOF.

A. THE BUYBACK:

1. This is in continuance to the PA and the LOF in connection with the Buyback of upto 9,95,000 (Nine Lakhs Ninety Five Thousand) fully paid-up Equity Shares of face value Rs. 10/- each ("Equity Shares") from the existing shareholders/ beneficial owners of SKP Securities Limited (the "Company" or "SKP") holding Equity Shares as on record date i.e., July 05, 2019, on a proportionate basis, through the tender offer route at a price of Rs. 70/- (Rupees Seventy Only) per equity share payable in cash, for an aggregate amount of Rs. 6,96,50,000/- (Rupees Six Crores Ninety Six Lakhs Fifty Thousand Only) excluding Company's transaction costs viz. brokerage, securities transaction tax, GST, stamp duty, etc. The Buyback Offer Size is 24.99% and 24.96% of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the latest Audited Standalone and Consolidated Financials of the

Company for the financial year ended March 31, 2019 respectively. 2. The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented by the Company through the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as provided under the Buyback Regulations and Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with Circular No. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, issued by the Securities and Exchange Board of India.

The Tender period for the Buyback opened on Friday, October 25, 2019 and closed on Friday, November 08, 2019.

B. DETAILS OF THE BUYBACK:

1. The Company has completed the process of the Buyback and has accepted 9,95,000 equity shares which were tendered in the Buyback offer at a price of Rs. 70/- per equity share aggregating to Rs. 6,96,50,000/- (Rupees Six Crores Ninety Six Lakhs Fifty Thousand Only) excluding Company's transaction costs viz. brokerage, securities transaction tax, Goods and Service Tax, Stamp

2. The Registrar to the Buy-back, Maheshwari Datamatics Private Limited, considered a total of 143 valid bids for 16,87,676 Equity Shares in response to the Buy-back, which is approximately 1.6962 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid applications considered by the Registrar to the Buy-back are as follows:

Category of Shareholders	No. of equity shares reserved in Buyback		Total valid equity shares tendered	% response	No. of equity shares accepted
Reserved Category for small shareholders	1,49,250	125	81,959	54.91%	81,959
General Category of other shareholders	8,45,750	18	16,05,717	189.86%	9,13,041
Total	9,95,000	143	16,87,676	169.62%	9,95,000

3. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the process as described in the LOF. The communication of acceptance/ rejection has been dispatched by the Registrar to the Buyback to the eligible shareholders on Friday, November 15, 2019.

4. The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited on Friday, November 15, 2019. The funds in respect of accepted Equity Shares were paid out to the respective seller members / custodians. If Eligible Shareholders bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by RBI/ respective bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokers' settlement bank account for onward transfer to such

5. The dematerialized Equity Shares accepted under the Buy-back were transferred to the Company's demat escrow account on Friday, November 15, 2019. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective seller members / custodians by the Indian Clearing Corporation Limited on Friday, November 15, 2019.

6. The Company shall initiate steps for extinguishment of 9,95,000 Equity Shares accepted pursuant to the Buyback and shall complete the same in accordance with the Buyback Regulations.

C. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN: 1. The capital structure of the Company Pre and Post Ruyback is as under-

Particulars	Pre-Buyback (Amount in Rs.)	Post-Buyback (Amount in Rs.)
Authorized Equity Share Capital 1,00,00,000 Equity Shares of face value of Rs. 10/- each	10,00,00,000/-	10,00,00,000/-
Issued, Subscribed and Paid-up Equity Shares 43,99,400 Equity Shares of face value of Rs. 10/- each 34,04,400 Equity Shares of face value of Rs. 10/- each	4,39,94,000/-	3,40,44,000/-*

2. The details of the shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares

Sr. No.	Name	No. of Equity Shares Accepted	% of total Equity Shares Accepted for the Buyback	% of total post Buyback Equity Shares
1.	Naresh Pachisia	5,06,446	50.90%	14.88%
2.	Pushpa Devi Bangur	90,987	9.14%	2.67%
3.	Naresh Pachisia & Sons (HUF)	79,675	8.01%	2.34%
4.	Manju Pachisia	62,960	6.33%	1.85%
5.	Credwyn Holdings (India) Pvt. Ltd.	59,339	5.96%	1.74%
6.	Nikunj Pachisia	34,719	3.49%	1.02%
7.	Vaibhav Pachisia	34,719	3.49%	1.02%
8.	Hemant Bangur	14,179	1.43%	0.42%
9.	Vinita Bangur	14,179	1.43%	0.42%
		A - A III - A III - A	200	2.0.221

8,97,203

Particulars	Pre-B	uyback	Post-Buyback*		
	Number of Shares	% of Shareholding	Number of Shares	% of Shareholding	
Promoter and persons acting in concert (collectively "the Promoters")	32,99,000	74.99%	25,80,481	75.80%	
Foreign Investors (including Non-Resident Indians, FIIs and Foreign Mutual funds)	2,749	0.06%		24.20%	
Financial Institutions/ Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	0	0.00%	8,23,919		
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	10,97,651	24.95%			
Total	43,99,400	100.00%	34,04,400	100.00%	

*Subject to Extinguishment of 9,95,000 equity shares. D. Manager to the Buyback:



VC Corporate Advisors Private Limited CIN: U67120WB2005PTC106051 SEBI REGN. No.: INM000011096 Validity of Registration: Permanent

(Contact Person: Ms. Urvi Belani) 31 Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No. -2C, Kolkata-700 013.

Phone No: (033) 2225-3940, Fax: (033) 2225-3941 Email: mail@vccorporate.com, Website: www.vccorporate.com

E. Director's Responsibility:

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept responsibility for all the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirm that the information in such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

Alka Khetawat

Company Secretary & Compliance Officer

ACS No. 47322

For and on behalf of the Board of Directors of SKP Securities Limited Sd/-

Nikunj Pachisia

Whole Time Director

DIN: 06933720

DIN: 00233768 Date: 15.11.2019 Place: Kolkata

Naresh Pachisia

Managing Director

नई दिल्ली

epaper.jansatta.com

Date: November 15, 2019 Place: Coimbatore



Date: 14/11/2019

Place: Mumbai

ROXY EXPORTS LIMITED

REDG. OFFICE: 116 C. Focal Point Phase V. Ludhiana - 141010 Phone: 0161-5011017, 5011022, Fax:+91-161-5011017 E-mail: roxyexportslimited@gmail.com; Website: www.roxycycle.com, www.roxyexports.inCIN: L51909PB1988PLC008009

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30/09/2019 (Rs. In Lacs except earning per share) Particulars Quarter Preious Year | Corresponding 3 months ended (31/03/2019) (30/09/2019) in the previous year(30/09/2018) (Refer Notes Below) (Unaudited) (Unaudited) 1. Total Income from Operations 132.56 24.71 4.53 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*) 0.56 1.92 1.12 Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or 0.56 1.12 Extraordinary items*) 1.92 4. Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or 0.56 0.80 1.12 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)] 0.56 0.80 1.12 360.00 360.00 360.00 6. Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited (51.51)(52.33)(49.80)Balance Sheet of the previous year. 8 Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Diluted 0.00

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company (www.roxyexports.in). For ROXY EXPOTS LIMITED

> SIDDHARTH CHIMANLAL SHAH Managing Director (DIN: 01343122)

FORM A

2 Date of incorporation of corporate debtor 03/05/2006

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy

Board of India (Insolvency Resolution Process for

Corporate Persons) Regulations, 2016) RELEVANT PARTICULARS Horizon Buildcon Pvt. Ltd 1 Name of corporate debtor

ľ	debtor is incorporated / registered	Tregistral of companies, New Den
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No.of corporate debtor	U70101DL2006PTC148372
5		Registered Office: C-36 Gulmohur Park, New Delhi-110049
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	8th November, 2019 (Copy of Orde Received on 13th November, 2019
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	6th May, 2019

3 Authority under which corporate Registrar of Companies New Delh

8 Name and registration number of Mr. Sanjay Gupta the insolvency professional acting Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00117 as interim resolution professional 2017-18/10252 9 Address and e-mail of the interim Address:E-10a, Kallash Colony, Greater resolution professional, as Kailash-1, New Delhi-110048 Email Id: sanjaygupta@aaainsolvency.com registered with the Board

10 Address and e-mail to be used for Address: E-10A, Kailash Colony, Greate correspondence with the interim Kailash-1, New Delhi-110048. resolution professional Email Id: horizon.buildcon@aaainsolvency.com 11 Last date for submission of claims 22nd November, 2019 12 Classes of creditors, if any, under clause (b) of Home Buyers (Real Estate sub-section (6A) of section 21, ascertained by Investors) the interim resolution professional 13 Names of Insolvency 1. Pawan Kumar Garg- IBBI/IPA-001/IP-

Professionals identified to act as P00608/2017-2018/11069

creditors in a class (Three names 2018-2019/12081

for each class) 3. Atul kumar - IBBI/IPA-002/IP- N00357 2017-2018/11007 14 (a) Relevant Forms: A.RELEVANT FORMS Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of corporate insolvency resolution process of the Horizon Buildcon Pvt. Ltd on 08th November, 2019 The creditors of the Horizon Buildcon Pvt. Ltd are hereby called upon to submit their claims with

Authorised Representative of 2. Arvind Mittal- IBBI/IPA-001/IP-P01358/

mentioned against entry No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditor may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

proof on or before 22nd November, 2019 to the interim resolution professional at the address

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entr No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA The claims may be submitted in their specific forms B, C, D and E from the website https://ibbi.gov.in.

downloadform.html in terms of Regulation 7,8 and 9 of The Insolvency and Bankrupcty Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 by the Operationa Creditors (except Workmen and Employees), Financial Creditors, Workmen or Employees and Authorized Representatives of Workmen and Employee, respectively, as the case may be. **Note:** The CIRP in this case was started vide Hon'ble NCLT order dated 08-11-2019. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties Mr. Sanjay Gupta

Interim Resolution Professional **AAA Insolvency Professional LLP** Date:16.11.2019 IBBI/IPA-001/IP-P00117/2017-18/10252 Place: New Delhi

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

CIN: L01112UP1989PLC011004

Regd. Office: A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar, Uttar Pradesh-203205 Email ID: secretarial@shrigangindustries.com Website: www.shrigangindustries.com

Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months

(Rs. in Lacs)					
S.No	Particulars	Quarter ended 30.09.2019 (UnAudited)	Half year ended 30.09.2019 (UnAudited)	Quarter ended 30.09.2018 (UnAudited)	
1	Total income from operations (net)	2.07	3.53	161.03	
2	Profit / (Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(69.91)	(153.92)	(87.57)	
3	Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(69.91)	(153.92)	(87.57)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(69.91)	(153.92)	(87.57)	
127.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	793.00	793.00	793.00	
6	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)	0.00	0.00	0.00	
7	Earnings per share(Face value of Rs. 10/- Each) Before and After Extraordinary items - Basic & Diluted				
	(*) Not Anuualized	(0.88)*	(1.94)*	(1.11)*	

The above results were adopted by the Audit Committee in their meeting held on November 14, 2019 and later on approved by the Board of Directors in their meeting held on November 14, 2019. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website at

At present the Company operates only in one segment-Vanaspati & Refined Oils. The Company is establishing a Distillery and Bottling Plant for IMFL & Country Liquor at Sandila, Hardoi, Uttar Pradesh, which is under implementation.

www.bseindia.com and company's Website at www.shrigangindustries.com

During the current guarter there was no production in the Vanaspati/refined oil unit of the Previous period figures have been regrouped/ rearranged to make them comparable to the

current period. By order of the Board

For Shri Gang Industries And Allied Products Limited

Syed Azizur Rahman

Whole Time Director

STATEMENT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

A JM FINANCIAL JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.

CIN: U67190MH2007PLC174287 Regd.Office:7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400 025 Authorized Officer: Kumar Gaurav, Vaibhav Shetty, Email: vaibhav.shetty@jmfl.com, gaurav.kumar@jmfl.com

Mobile: 9820387460, 9930144745, Phone + +912266301658/1674, Website: www.jmfinancialarc.com

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Drugs Ltd. (hereinafter referred to as the 'Borrower will be Rs.2,50,00,000/- (Rupees Two Crore and F deposit will be Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five	
Guarantor(s) that the below described immove JM Financial Asset Reconstruction Company Limit trustee of JMFARC - SBI Geometric October 2016 constructive possession of which has been taken be Creditor, will be sold on "As is where is", "As is December 10, 2019 at 11.00 am, for recovery of F Hundred Fifty Seven Crore Seventy One Lakhs: Seventy Five and Twenty Two Paise Only) due to	nited (JMFARC) acting in its capacity as 16 - Trust (the "Secured Creditor"), the by the Authorised Officer of the Secured what is", and "Whatever there is" or Rs 3,57,71,78,675.22ps (Rupees Three Seventy Eight Thousand Six Hundred the Secured Creditor from Parabolic or) and its guarantors. The reserve price
Notice is hereby given to the public in general an	id in particular to the Borrower (s) and
with provisions to Rule 8 (6) of the Security Interest	ent of Security Interest Act, 2002 read t (Enforcement) Rules, 2002

Description of the Immovable Property	(in Rs.)	Earnest Money Deposit (in Rs.)
House no 1591 BP admeasuring 807 sqft on land admeasuring 4520 sq ft at Sector 23, 23-A, Urban Estate, Gurgoan having in the name of J D Gupta		Rs. 25,00,000

Encumbrances known, if any: Not Known For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the

Secured Creditor's website i.e. https://www.jmfinancialarc.com/assets-for-sale and on https://www.bankauctions.in Sd/-

Authorised Officer JM Financial Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as trustee of Date: 16 November, 2019 JMFARC - SBI Geometric October 2016- Trust Place: Haryana

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD

Particulars

Reg. Office: Office No.36, A-10 Central Spine, Alankar Plaza,

(Rs in Lacs except per share data)

Half Year Ended

Vidhvadhar Nagar, Jaipur-302023 CIN: L27109RJ2009PLC030511 nail.com. Website: www.rammingmass.com Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter & Half Year ended 30th Sept., 2019

Quarter Ended

(Unaudited) (Unaudited	(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)	(Audited)
1683.79	1678.69	1371.33	3362.47	2599.29	5653.06
340.55	323.14	233.11	663.67	510.23	1021.35
340.55	323.14	233.11	663.67	510.23	1021.35
259.74	246.08	172.04	505.8	1 376.57	804.63
259.74	246.08	171.54	505.8	375.57	802.64
100.51	100.51	100.51	100.51	100.51	100.5
	- **	- 9	2742.06	-	2236.24
2.58	2.45	1.71	5.03	3.75	8.0
	(Unaudited 1683.79 340.55 340.55 259.74 100.51	(Unaudited) (Unaudited 1683.79 1678.69 340.55 323.14 340.55 323.14 259.74 246.08 100.51 100.51	(Unaudited) (Unaud	(Unaudited) (Unaud	340.55 323.14 233.11 663.67 510.23 259.74 246.08 172.04 505.81 376.57 1 259.74 246.08 171.54 505.81 375.57 100.51 100.51 100.51 100.51 1 2742.06 -

b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Year Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Othe Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half-Yearly Financial Results are available on the website viz. www.bseindia.com. The same is also

available on the Company website viz. www.rammingmass.com. c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss i accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable

By order of Board For Raghav Productivity Enhancers Limited

GVK

Rajesh Kabra Date: 15th November, 2019 (Managing Director) DIN: 00935200



Place: New Delhi

Date: November 14, 2019

Mantri Infrastructure Private Limited

Registered Office: #41, Vittal Mallya Road, Bangalore - 560001 (CIN:U45201KA2007PTC043458)

Amount in Lakhs, Except Per share data SI. Half year ended Year ended Half year ended Particulars Sept. 30, 2019 No. Sept. 30, 2018 March 31, 2019 (Unaudited) (Unaudited) (audited) Revenue from Operations 4.65 5.75 Other Operating Income 111.06 34.54 3 Other income 34.54 115.71 Total Income (I+II+III) 5.75 4 Expenses (a) Employee benefit expenses (b) Rent including liecence fee paid for land (d) Power and fuel 17.80 308.05 47.66 (e) Finance Cost (f) Depreciation and amortisation expenses 0.05 0.12 0.23 45.64 34.73 15.36 (g) Others Expenses 323.53 93.53 Total Expenses 52.58 (207.81)Profit / (loss) before tax & exceptional items (IV-VI) (18.04)(87.78)Exceptional items Profit/(loss) before tax (VII-VIII) (18.04)(207.81) (87.78)9 (81.40)(54.09)10 Tax expenses: (18.04)(153.72)Profit / (loss) for the period (IX-X) (6.38)Other comprehensive income Items that will not be reclassified to profit or (loss) Remeasurement of the net defined benefit liability / asset Earings / Loss Per Share in Rs. (Face Value of Rs. 10) (180.41)(1.537.24)(63.82)-Diluted (1,537.24)(63.82)(180.41)Debt Equity Ratio (64.74)16.37 20.20 Debt Service Coverage Ratio 0.0020 0.99 (0.17)Interest Service Coverage Ratio 0.0130 0.99 (2.84)

November 2019 (2) In accordance with Ind AS 108 on "Operating Segments", the Company operates in one business segment viz., development of a Commercial Property and hence segment information is not required to be furnished. (3) The above financial results of the company have been reviewed by the statutory auditors of the company. (4) Paid-up debt capital includes non-convertible redeemable bonds. ("Listed NCD") amounting to Rs. 24,900 lakhs and optionally convertible Debentures of Rs. 7,500 Lakhs. (5) In accordance with Section 71(4) of Companies Act, 2013 read with Clause 18(7)(a) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Company is required to create a debenture redemption reserve to which adequate amounts shall be credited out of profits every year until such debentures are redeemed. However, the Company has incurred a loss for the half year ended 30th September, 2019, no amount has been transferred to debenture redemption reserve. (6) Figures have been regrouped/rearranged where ever necessary (7) Asset cover available - 109.01% (8) The Conversion Ratio on OCD issued by the company will be decided on mutual discussion at the time of exercising the option by holder. Hence, we have not considered the same for the calculation of diluted EPS, in accordance with Ind AS 33, Earnings per share. (9) Networth as on 30th September, 2019 is Rs 36,17,657 (Negative) The Company has been assigned a Credit rating of CARE BB+(SO) by CARE, dated 29th March, 2019 (11) The Listed NCD carries a coupon rate of 9% non convertible and redeemable in 15 unequal installments by March 2023 secured by an exclusive hypothecation over present and future movable assets of the company and pledge over the share of holding company.

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Half yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website Place : Bengaluru Date: 15.11.2019

Notes: (1) The Financials statements has been reviewed and taken on record at the board meeting of the board of Directors of the company held on 15

Note: The above is an extract of the detailed format of Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing For and on behalf of the board Mantri Infrastructure Private Limited Methuku Srinivas, Director, DIN:02009224

GVK Power & Infrastructure Limited

(CIN: L74999TG2005PLC059013) Registered office: Paigah House, 156-159, Sardar Patel Road, Secunderabad-500 003 (Telangana)

Place: Jaipur

Phone No: 040-2790 2663/64, Fax: 040-2790 2665 Website: www.gvk.com; Email: sanjeevkumar.singh@gvk.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019 (Rs. in Lakhs)

Quarter ended Half year ended Year ended (Unaudited) (Audited) (Unaudited) **Particulars** 30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018 31.03.2019 2,321 1,690 Net sales / income from operations 1,486 2,066 1,230 3,552 2,841 11,394 Profit/(Loss) from ordinary activities after tax 2,066 1,230 3,552 2,841 11,394 Profit/(Loss) from ordinary activities after tax (after Extraordinary items) 1,486 "Paid-up equity share capital 15,792 (Face value of share: Re 1/- each)" 15,792 15,792 15,792 15,792 15,792 Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet Earnings per share (before extraordinary items) - (not annualised) a) Basic (in Rs.) 0.09 0.13 0.22 0.18 0.09 0.22 0.72 b) Diluted (in Rs.) 0.13 0.08 0.18 Earnings per share (after extraordinary items) -(not annualised) a) Basic (in Rs.) 0.09 0.13 0.22 0.18 0.72 0.08 b) Diluted (in Rs.) 0.09 0.13 0.22 0.18 0.72 0.08 Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019

Quarter ended Half year ended (Unaudited) (Unaudited) (Audited) **Particulars** 30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018 31.03.2019 Net sales / income from operations 99,522 98,945 100,715 198,467 203,949 409,81 (30,683) Loss from ordinary activities after tax (15,901)(13,278)(11,056)(29,179)(16,485) (30,683) Loss from ordinary activities after tax (after Extraordinary items) (13,278)(11,056)(29,179)(16,485) (15,901)"Paid-up equity share capital 15,792 15,792 15,792 15,792 15,792 15,792 (Face value of share: Re 1/- each)" Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet Earnings per share (before extraordinary items) -(not annualised) a) Basic (in Rs.) (0.93)(0.85)(0.77)(1.78)(1.25)(2.30)b) Diluted (in Rs.) (0.93)(1.78)(1.25)(2.30)(0.85)(0.77)Earnings per share (after extraordinary items) -(not annualised) a) Basic (in Rs.) (0.93)(2.30)(0.85)(0.77)(1.78)(1.25)

b) Diluted (in Rs.) (0.93)(0.85)(1.25)(2.30)(0.77)(1.78)Note: The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites o BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com) and on the website of the company. Note: 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee on November 13, 2019 and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on November 14, 2019. for GVK Power & Infrastructure Limited Place: Hyderabad P V Prasanna Reddy

RMZ Infotech Private Limited

Corporate Identity Number (CIN): U01119KA2003PTC041807 Registered Office: 'The Millenia', Tower B, Level 12 - 14, No. 1 & 2, Murphy Road, Ulsoor, Bangalore - 560 008, India Ph: +91(80) 4000 4000, Fax: +91(80) 4000 4100, Email: gen@rmzcorp.com Website: www.rmzcorp.com



FUTURE OF SPACE

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Six Months ended 30th September 2019 Amount in INR Millior

Half Year ended Half Vaar andad

		Half Year ended	Hait Year ended	Year ended
SI. No	Particulars	30 September 2019	30 September 2018	31 March 2019
		[Unaudited]	[Unaudited]	[Audited]
1	Total Income from Operations	2,775.74	2,360.79	4,964.03
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, Exceptional and / or			
	Extraordinary items)	(556.00)	228.00	583.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or			
	Extraordinary items)	(556.00)	228.00	583.28
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or			
	Extraordinary items)	(549.29)	118.21	342.88
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising profit / (Loss)			
	for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	(549.29)	118.21	342.88
6.	Paid up equity share capital	4,190.71	4,190.71	4,190.71
7.	Reserves (excluding revaluation reserve)	-	-	11,729.65
8.	Net worth	15,667.59	15,695.97	15,920.36
9.	Paid up debt capital / outstanding debt	34,504.42	26,311.68	27,543.97
10.	Outstanding redemable preference shares	-	-	-
11.	Debt Equity ratio	2.26	1.80	1.77
12.	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued			
	operations)-			
	i) Basic:	(1.31)	0.28	0.82
	ii) Diluted:	(1.31)	0.28	0.82
13.	Capital redemption reserve	NA	NA	NA
14.	Debenture redemption reserve	395.01	1,094.83	395.01
15.	Debt service coverage ratio	0.13	0.20	0.25

Interest service coverage ratio Notes

a) The above is an extract of the detailed format of unaudited half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited half yearly financial results are available on the websites of BSE Limited (wwww.bseindia.com) and the Company (www.rmzcorp.com).

0.78

b) The standalone unaudited financial results for the period ended 30th September 2019 have been reviewed and approved by the Board of Directors of the Company on 14 November 2019. The statutory auditors, B S R & Associates LLP have carried out limited review of these results. The information presented above is prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and in compliance of the Debt Listing Agreement entered with BSE Limited. The above unaudited standalone financial results are filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com

Below is the formula used for the ratios mentioned in the results above.

i) Debt equity ratio = Total debt (including redeemable non-convertible bonds) / share holders' equity (excluding debenture redemption reserve). ii) Debt service coverage ratio = Earnings before interest and tax / (finance cost + principal repayment)

iii) Interest service coverage ratio = Earnings before interest and tax / finance cost

iv) Asset Cover = [Total asset - intangible asset and intangible assets under development - (total liability - listed redeemable non-convertible bonds)] / Total outstanding listed redeemable non-convertible bonds

On 20th September 2019, the Government of India, vide the taxation laws (Amendment) Ordinance 2019, inserted Section 115BAA in the Income Tax Act, 1961, which provides domestic companies an option to pay Corporate Tax at reduced rate effective 1 April, 2019, subject to certain conditions. The Company is in the process of evaluating this option. Currently, the Company has not considered the reduced rate in computing the tax liability and deferred tax balances.

For and on behalf of the Board of RMZ

1.17

Infotech Private Limited

Director and Chief Financial Officer

RMZ Ecoworld Infrastruture Private Limited

November 14, 2019

Corporate Identity Number (CIN): U45202KA1994PTC015636 Registered Office: 'The Millenia', Tower B, Level 12 - 14, No. 1 & 2, Murphy Road, Ulsoor, Bangalore - 560 008, India

Ph: +91(80) 4000 4000, Fax: +91(80) 4000 4100, Email: gen@rmzcorp.com Website: www.rmzcorp.com

FUTURE OF SPACE

1.07

Whole-time Director

Statement of Unaudited Financial Results for the Six Months ended 30th September 2019 **Amount in INR Million**

Half Year ended Year ended Half Year ended SI. 30 September 2018 31 March 2019 30 September 2019 No **Particulars** [Unaudited] [Unaudited] [Audited] 3,372.38 3,478.56 7,004.32 Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) (235.11)(7.55)289.23 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or 289.23 Extraordinary items) (235.11)(7.55)Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) 181.95 (475.68)(29.28)Total Comprehensive income for the period [Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)] (475.68)181.95 (29.28)1,000.00 1,000.00 Paid up equity share capital 1,000.00 Reserves (excluding revaluation reserve) 1,919.31 2,883.81 2,919.30 47,365.93 Paid up debt capital / outstanding debt 38,069.44 44,607.09 Outstanding redemable preference shares 342.56 539.46 323.63 11. Debt Equity ratio 17.53 18.97 16.30 Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued 12. operations)-(4.76)1.82 i) Basic: (0.29)(4.76)1.82 ii) Diluted: (0.29)13. Capital redemption reserve NA NA NA 14. Debenture redemption reserve 181.95 181.94 15. Debt service coverage ratio 0.31 0.23

Interest service coverage ratio 16

1.19

a) The above is an extract of the detailed format of unaudited half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited half yearly financial results are available on the websites of BSE Limited (wwww.bseindia.com) and the Company (www.rmzcorp.com).

with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and in compliance of the Debt Listing Agreement entered with BSE Limited. The above unaudited standalone financial results are filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

November 2019. The statutory auditors, B S R & Associates LLP have carried out limited review of these results. The information presented above is prepared in accordance

For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

Below is the formula used for the ratios mentioned in the results above.

i) Debt equity ratio = Total debt (including redeemable non-convertible bonds) / share holders' equity (excluding debenture redemption reserve). ii) Debt service coverage ratio = Earnings before interest and tax / (finance cost + principal repayment) iii) Interest service coverage ratio = Earnings before interest and tax / finance cost

iv) Asset Cover = [Total asset - intangible asset and intangible assets under development - (total liability - listed redeemable non-convertible debentures)] / Total outstanding listed redeemable non-convertible debentures On 20th September 2019, the Government of India, vide the taxation laws (Amendment) Ordinance 2019, inserted Section 115BAA in the Income Tax Act, 1961, which

evaluating this option. Currently, the Company has not considered the reduced rate in computing the tax liability and deferred tax balances. For and on behalf of the Board of RMZ

1.00

Deepak Chhabria Director

epaper.financial_press.com

Place : Bengaluru

Date: 14 November 2019

Deepak Chhabria

Date: 14 November 2019

Place: Bengaluru

New Delhi

b) The standalone unaudited financial results for the period ended 30th September 2019 have been reviewed and approved by the Board of Directors of the Company on 14

pertinent disclosures have been made to BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com

provides domestic companies an option to pay Corporate Tax at reduced rate effective 1 April, 2019, subject to certain conditions. The Company is in the process of

Ecoworld Infrastructure Private Limited

0.91